



f

सूचना और प्रसारण मंत्रालय



न्यूज़ ऑन एयर रेडियो लाइव-स्ट्रीम भारत रैंकिंग



एआईआर कोच्चि एफएम रेनबो, एफएम रेनबो दिल्ली और जयपुर इस रैंकिंग में ऊंचे स्थान पर



in

प्रविष्टि तिथि: 27 AUG 2021 12:26PM by PIB Delhi

भारत के उन शीर्ष शहरों की नवीनतम रैंकिंग में जहां न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर ऑल इंडिया रेडियो लाइव-स्ट्रीम्स सबसे अधिक लोकप्रिय हैं, मुंबई, दिल्ली एनसीआर और जयपुर ने इस रैंकिंग में चेन्नई और अहमदाबाद को पछाड़ते हुए बढ़त हासिल की है।

भारत में शीर्ष एआईआर स्ट्रीम्स की रैंकिंग के बड़े बदलावों में, एआईआर कोडाईकनाल पिछले पखवाड़े में 8वें स्थान पर पहुंचने के बाद अपने पिछले 10वें स्थान पर आ गया है। एआईआर कोच्चि एफएम रेनबो और एफएम रेनबो दिल्ली दोनों ही एक स्थान ऊपर हो गए हैं।

शहरों की शीर्ष एआईआर स्ट्रीम्स रैंकिंग में, रेनबो कन्नड़ कामनबिलु पुणे और मुंबई में काफी लोकप्रिय है, जबकि एफएम गोल्ड दिल्ली, बंगलुरु, मच्छगन, कोलकाता और हैदराबाद में काफी पसंदीदा है।

ऑल इंडिया रेडियो की 240 से अधिक रेडियो सेवाओं को न्यूज़ ऑन एयर ऐप और प्रसार भारती के आधिकारिक ऐप पर लाइव-स्ट्रीम किया जाता है। न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर इन ऑल इंडिया रेडियो स्ट्रीम्स न केवल भारत में, बल्कि विश्व के 85 से अधिक देशों और 8000 शहरों में भी बड़ी संख्या में श्रोता हैं।

अगर भारत के शीर्ष शहरों पर एक नज़र डालें जहां न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर ऑल इंडिया रेडियो लाइव-स्ट्रीम्स सबसे लोकप्रिय हैं तो भारत में न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर ऑल इंडिया रेडियो लाइव-स्ट्रीम्स को शीर्ष पर पाया जा सकता है और इसका शहर-वार ब्रेकअप भी यही है। ये रैंकिंग 1 अगस्त से 15 अगस्त, 2021 तक के पाक्षिक आंकड़ों पर आधारित हैं।

रैंकिंग देखने के लिए यहां क्लिक करें

एमजी/एएम/जेके/डीके-

(रिलीज़ आईडी: 1749507) आगंतुक पटल : 2

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English

